



SILGO RETAIL LIMITED

CIN: L36911RJ2016PLC049036

SIL/JAI/2021-22

Date: 28 October, 2021

To
National Stock Exchange India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400051

COMPANY NAME : SILGO RETAIL LIMITED

SYMBOL: SILGO

Subject: Intimation regarding newspaper publication of Unaudited Financials Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2021.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provision of Regulation 33 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Silgo Retail Limited ("COMPANY") at its meeting held on Wednesday, October 27, 2021 Considered and Approved the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended September 30, 2021.

Further, pursuant to provisions of Regulations 47 of SEBI, LODR the said unaudited Standalone Financials Results of the company for the quarter and half year ended September 30, 2021 has been published by the company in Financial Express (English) and Business Remedy (Hindi) newspapers on October 28, 2021.

The above results are also being made available on the Company's website at www.silgo.in

The Board meeting commenced at 3:00 P.M. and concluded at 5.15 P.M.

Kindly take the same on your record.

Yours truly,
For SILGO RETAIL LIMITED


Tripti Sharma
Company Secretary
Membership No.: A52232

THE SUKHJIT STARCH & CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Sarai Road, Phagwara-144401
CIN: L15321PB1944PLC001925

NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given to the general public that the following share Certificate(s) of the Company has been reported to be lost/ not traceable by the shareholder.

SL No.	Name Of The Shareholder	Folio No.	No of Shares	Certificate (s) No.	Distinctive No From To
1	D ANANDA RAJAN (DECEASED)	4455	20	13286	650838-650857
	D RAMESH RAJAN (LEGAL HEIR(S))	4455	10	18873	755291-755300
		4455	25	45839	1858058-1858082
		4455	5	45840	1858083-1858087

Members of the public are hereby cautioned that buying or selling of the above mentioned share Certificate(s) by any person shall be illegal and he shall do so at his/her own risk and Company will not be liable for the same. Notice be and is hereby further given that the Company has received request for Transfer of Shares / issue of duplicate share certificate in lieu of the original. If no objection is received from any member of the Public within Fifteen days from the date of his notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in lieu of the above share Certificate(s).

For The Sukhjith Starch & Chemicals Ltd.
Sd/-
Date : Phagwara
Place : 26/10/21
Company Secretary

SILGO RETAIL LIMITED

CIN: L36911RJ2016PLC049036

Regd. Office: B-II, Mahalaxmi Nagar, JLN Marg, Jaipur Rajasthan-302017
E-mail: info@silgo.in website: www.silgo.in

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year Ended September 30, 2021

(Rupees in thousands except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	87125.67	135350.14	63430.38	318952.81
2	Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7804.51	13451.22	7978.07	29772.68
3	Net profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7804.51	13451.22	7978.07	29772.68
4	Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6044.95	10265.91	5907.46	21984.21
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	6044.95	10265.91	5907.46	22105.93
6	Equity Share Capital	102700	102700	66660	102700
7	Other Equity	--	--	--	157853.35
8	Earning per share (of Rs. 10/-each) Basic: Diluted:	0.59 0.59	1.00 1.00	0.67 0.67	2.32 2.32

Note:
a. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2021 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2021 is available on the website of Stock Exchange: www.nseindia.com and the Company's website: www.silgo.in.
b. The above results have been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on October 27, 2021.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Nitin Jain
(Managing Director)
DIN: 00935911

Place: Jaipur
Date: October 27, 2021

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

Registered Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027
Landline: (91)-11-45613885 • CIN: L74899DL1995PLC064005
Website: http://www.newlightapparels.com • E-Mail: newlightapparels@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER & HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2021

(Amount in Thousands)

Particulars	Quarter Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2021 (Unaudited)
Total Income from Operations	24,696.55	17,500.53	28,344.15
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	980.80	471.90	36.29
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	980.80	471.90	36.29
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	725.29	353.92	26.84
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	725.29	353.92	26.84
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	21,962.30	21,962.30	21,962.30
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)- Basic : Diluted:	(0.33) (0.33)	0.16 0.16	0.01 0.01

Notes:
1) The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2021 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 30th September, 2021 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.newlightapparels.com).
2) The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 27th October, 2021.

For NEW LIGHT APPARELS LIMITED
Sd/-
SANDEEP MAKKAD
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01112423

Place: Delhi
Date: 28.10.2021

APPLE METAL INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L27104DL1972PLC206966)

Registered Office: Private Office No-303, Third Floor Building No-5, Community Center, Preet Vihar, Delhi-110092
Ph: +91 11 41755370 | Email: office@applegroup.co.in

Shareholders of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (which shall include any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), also read with Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations"), and General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, General Circulars No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circulars No.22/2020 dated 15th June, 2020, General Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020 and General Circular No.10/2021 dated 23rd June, 2021 ("General Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the Company has on 26.10.2021, completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated 25.10.2021 with the proposed resolution and explanatory statement thereto along with a Postal Ballot to the shareholders of the Company whose names appear in the Register of shareholders as on 22.10.2021 seeking their consent for special resolution for change of objects of the Company, which it proposes to pass through Postal Ballot which includes voting by electronic means.

The Company is pleased to extend e-voting facility for its members to enable them to cast their vote electronically. For using e-voting facility, then he/she should carefully follow the instructions given under the heading "instructions" of Postal Ballot Form. Shareholders shall note that the option of e-voting is available from Wednesday, 27th October, 2021 at 9.00 a.m. to Thursday, 25th November, 2021 at 5.00 p.m.

The Board of Directors of the Company have appointed M/s. L. Gupta and Associates, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. Shareholders are requested to kindly note that the duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer not later than Thursday, November 25, 2021 at 5.00 p.m. The self-addressed postage prepaid envelope bears the address to which the duly completed postal ballot forms are to be sent. All Postal Ballot Forms and E-Votes received after the said date and time will be treated as if replies from such shareholders have not been received.

Any shareholder who has not received Postal Ballot Form may request for a duplicate Postal Ballot Form to the Company. In case of any grievances connected with the voting through Postal Ballot, shareholders are requested to contact Ms. Surbhi Dhandharia, Compliance Officer of the Company. Her contact details are 01141755370 (phone), office@applegroup.co.in (email id).

By Order of the Board of Directors
Apple Metal Industries Limited
Sd/-
Hiren Vinod Shah (Managing Director)
DIN: 08784164

Date : 27.10.2021
Place : Delhi
Akhilesh Park, Taluka-Kagal, Royal Heritage Flat No. 205, Magdum Hospital, Najik, Kagal Kohlapur, Maharashtra-416216

TPNODL

TP NORTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED
(A Tata Power & Odisha Govt. Joint Venture)
CIN No.: U40106OR2021SGC035951

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

October 27, 2021

TPNODL invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No. Work Description	Tender Fee / EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date of Bid Submission
TPNODL/OT/2021-22/091 Dtd.16.10.2021 (Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1ph meter testing bench & 3ph meter testing bench)	Rs.5,000/- Rs.2,00,000	28.10.2021	12.11.2021; 1500 Hrs
TPNODL/OT/2021-22/097 Dtd.27.10.2021 (Construction of Store Shed of Size 28M X 17M at Balia, Balasore)	Rs.5,000/- Rs.2,00,000	01.11.2021	15.11.2021; 1500 Hrs

CORRIGENDUM

Tender Enquiry No.	Work Description	Published Date	Revised Due Date & Time of Bid Submission/ Date and time of opening of bids
TPNODL/IT/2021-22/016 Dtd.01.07.2021	Implementation of Enterprise GIS at TPNODL	02.07.2021	08.11.2021; 1500 Hrs. / 08.11.2021; 15.30 Hrs

Please visit our website- www.tpnodi.com (Tenders) for complete details. All future communication regarding the tenders will be published on our website against each tender.

Query related to corrigendum, please contact to undersign-
HOD- Contracts
(9717393121)

homefirst

We'll take you home

Home First Finance Company India Limited

Registered office: 511, Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400059
CIN: L65990MH2010PLC240703 Tel: 91 022 6694 0386; Email id: corporate@homefirstindia.com; website: <https://homefirstindia.com/>

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given in terms of provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and amended from time to time) , SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard-2 and such other applicable laws and regulations, the approval of Members of Home First Finance Company India Limited is being sought to transact certain business(es) as set out in the Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement which has been dispatched on Wednesday, October 27, 2021 to all the Members of the Company, who have registered their email address with the Company or with their Depository Participant as on Friday, October 22, 2021 (the "cut-off date").

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Members can vote only through the remote e-voting process. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, October 22, 2021.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited to provide remote e-voting facility to all its members. Voting through Postal Ballot by electronic means shall commence on Thursday, October 28, 2021 at 9:00 AM IST and shall end on Friday, November 26, 2021 at 5:00 PM IST. Voting shall not be allowed after 5:00 PM IST on Friday, November 26, 2021.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares with the depository through their Depository Participant. The instructions on the process of remote e-voting and manner in which members can cast their vote through remote e-voting are provided in the Notice of Postal Ballot.

The Notice of Postal Ballot will also be available on the Company's website at www.homefirstindia.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFin Technologies Private Limited at www.evoting.kfintech.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Aashish K. Bhatt (M.No.19639), Designated Partner of Bhatt & Associates Company Secretaries LLP as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process only through the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot through remote e-voting (along with the Scrutinizer's Report) will be announced by the Chairman of the Company or any other official authorized by him on or before Tuesday, November 30, 2021 at the registered office of the Company and will also be displayed on the website of the Company, besides being communicated to the Stock Exchanges, Depositories and Registrar and Transfer Agent.

In case of any queries or grievances with regard to remote e-voting process, Members can contact Mr. Sidhar Balamurli, Manager-KFin Technologies Private Limited at Selenium Tower B, Plot no 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad, Telangana- 500 032, at Contact No. 1800 309 4001, email id: enward.rs@kfintech.com and corporate@homefirstindia.com.

For Home First Finance Company India Limited
Sd/-
Shreyans Bachawat
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 27-10-2021
Place: Mumbai

हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड

HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED
(CIN No. L25206TG1983PLC004037)
Registered Office: 303, Babukhan Estate, Basheerbagh, Hyderabad-500 001.
Tel: +91-40-23240047, 23241051, 23237125, 23297160, Fax: +91-40-23296455
Website: www.hfi.co.in, Email: hfi-shareholders@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2021 (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2021 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2021 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2020 Unaudited	Half Year Ended 30.09.2021 Unaudited	Half Year Ended 30.09.2020 Unaudited	Year Ended 31.03.2021 Audited
1	Total Income from Operations(Net)	31.34	35.23	88.20	66.57	383.96	616.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(87.70)	(82.94)	(454.56)	(170.64)	(1,823.80)	(2,483.09)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(87.70)	(82.94)	(454.56)	(170.64)	(1,823.80)	(2,483.09)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(87.70)	(82.94)	(454.56)	(170.64)	(1,823.80)	(2,483.09)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (After tax)]	(87.70)	(82.94)	(454.56)	(170.64)	(1,823.80)	(2,532.07)
6	Equity Share Capital	1,961.46	1,961.46	1,961.46	1,961.46	1,961.46	1,961.46
7	Earnings per equity share (face value Rs. 10/- each) - Basic - Diluted	(0.45) (0.45)	(0.42) (0.42)	(2.32) (2.32)	(0.87) (0.87)	(9.31) (9.31)	(12.92) (12.92)

Notes:
1. The above results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 27.10.2021
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and six months ended September, 2021 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.hfi.co.in and on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED
Sd/-
(SAJEEV B)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN No.09344438

Place: Hyderabad
Date: 27.10.2021

POSSESSION NOTICE

Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co-borrowers as mentioned in column no. 3 to pay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers and co-borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possession of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

Sr. No.	Loan Account	Borrower / Co-Borrower	Date of Demand Notice	Amount Demanded	Date of Possession
1	DRBMEED00432271	Mr. Afraz Mrs Setraj and Mrs. Munrar	11.05.2021	Rs. 17,50,062.29/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: H No. 444/12, Khasra No. 3822, 3823, 3829, 3830, 3825, 3826, 3827, 3838, Buknar Nagar, Uncha Khara, Meerut, Uttar Pradesh - 250002					
2	DRBLMEE00472412	Mr. Jitender Kumar and Reena Devi	23.04.2021	Rs. 17,07,281.01/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Old H No. 219, New 380/A, Ward No. 80, Multan Nagar, Meerut, Uttar Pradesh - 250002					
3	DRHLMEED00429752	Mr. Kailash, Ms. Rakesh and Deepak Kumar	10.05.2021	Rs. 27,08,529.51/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Plot No. 385-E Khasra No. 328.330 MI & 333, Ishapuram Village, Amhedra, Aadipur, Pargana, Tehsil Mawana Road Meerut, Uttar Pradesh - 250002.					
4	DRBLMEE00494908	Manish Soni and Bhawna Verma	23.04.2021	Rs. 12,06,263/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Part of House No. 192/5, Village Multan Nagar, Baghat Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250002					
5	DRBLMEE00482630	Mr. Mayank Verma, Bobby Soni, Anupam Jewellers and Anupam Soni	23.04.2021	Rs. 12,06,263/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Part of House No. 78 Then 51 Present No. 56, Mohalla Maliwada, Chahshor, Meerut, Uttar Pradesh - 250002					
6	DRBLGHZ00452901	Mrs. Poonam and Mr. Sanjay	02.06.2021	Rs. 7,98,656/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Khasra No. 474, Village Sarma, Mohalla Satyalkot, Ashram Murad Nagar, Distt Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201206					
7	DRBLMEE00444110	Mustaqeem and Kashifa Begum	23.11.2019	Rs. 21,64,325.62/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: MPL No. 244 Mohalla Firoj Nagar, Lisari Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250002					
8	DRBLMEE00424357	Nitin Sharma, Shivani Sharma and Bhanu Prakash	10.05.2021	Rs. 11,61,898.68/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: MPL No. 92, Mohalla Mata ka, Bagh Sharda Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250001					
9	DRHLGHZ00456453	Vineet Vishnoi and Rashmi Vishnoi	21.04.2021	Rs. 21,06,245.07/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Municipal House No. 729, Part Of Khasra No. 832, Village Bisokhar Maroof, Mohalla Santspura, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201204					
10	DRBLGHZ00471317	Yusuf Khan and Ms. Farjia	21.04.2021	Rs. 14,13,810.28/-	21.10.2021
Description of Secured Assets: Khasra No. 749, Village Sarma Murad Nagar, Pargana Jalalabad Tehsil- Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201204					

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon.

Date : 28.10.2021
Place : Ghaziabad and Meerut
Sd/-
Authorized Officer

CAN FIN HOMES LTD.

CIN : L85110KA1987PLC008699, #59-60, 1st Floor, Neelam Bata Road, NIT Opp RG Stone Hospital, Faridabad-121001, 0129-2436596, 7625079140 faridabad@canfinhomes.com

POSSESSION NOTICE [Rule 8 (1)]

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. in exercise of the powers conferred under Sec 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the following Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors to repay the amounts mentioned in the notices and interest upon the date of final payment, within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrowers as well as the guarantors have failed to repay the amount. Notice is hereby given to the borrowers in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below against each borrower, in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the mentioned date below in table

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the following properties and any dealings with these properties will be subject to the charge of Can Fin Homes Ltd. Faridabad Branch for amounts mentioned against each property, which is payable with further interest thereon until payment in full.

Sr. No.	Name of Borrowers	Description of the properties mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
1.	Mr. MAHINDER PRATAP KATHURIA & Mr. MANISH KUMAR	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING HOUSE NO. 5N/8A, REAR SIDE, NIT, FARIDABAD - 121 001. HARYANA-121001. NORTH: HOUSE NO. 5N/9A, SOUTH: HOUSE NO. 5N/7A, EAST : FRONT PART OF PROPERTY, WEST : HOUSE NO. 5N/4A	03.12.2019	22/10/2021	Rs 24,24,655.00/- and interest from 03.12.2019
2.	Mr. NARENDER SHARMA & Mrs. ANU BALA	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING HOUSE NO. 726-727,HUDA SECTOR-2, FARIDABAD, HARYANA PIN-121 004. NORTH: PLOT NO. 722, SOUTH: PLOT NO. 728, EAST : ROAD, WEST : PLOT NO. 728 & 719	03.12.2019	22/10/2021	Rs 13,09,869.00/- and interest from 03.12.2019
3.	Mrs. URMILA, Mr. SURAJ SAXENA & Mr. VIKAS	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING HOUSE NO. 36, WESTERN SIDE, ARYA NAGAR, BALLABGARH, FARIDABAD, HARYANA - 121 001. NORTH: ROAD, SOUTH: 20 F1 ROAD, EAST : OTHER PROPERTY, WEST: OTHERS PROPERTY	09.01.2020	22/10/2021	Rs 14,54,584.00/- and interest from 09.01.2020
4.	Mr. GOUMSI GALYAN & MS. SHARDA	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING HOUSE NO. 177A-A, LIG, FIRST FLOOR, SECTOR-55, FARIDABAD, HARYANA-121 004. NORTH: ROAD, SOUTH : HOUSE NO. 1777-A, EAST : HOUSE NO 1773-A, WEST : HOUSE NO. 1775-A	01.05.2019	22/10/2021	Rs 15,35,719.00/- and interest from 01.05.2019
5.	Mr. SONU UPPAL & Mrs. NISHI UPPAL	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING HOUSE NO. 1192, KHASRA NO.62/3/2, JAWAHAR COLONY, NIT, FARIDABAD - 121 005. HARYANA, NORTH: OTHERS PROPERTY, SOUTH: 15 F1 WIDE ROAD, EAST: PART OF PROPERTY, WEST : HOUSE NO. 1193	06.02.2020	22/10/2021	Rs 22,07,970.00/- and interest from 06.02.2020

Date : 27/10/2021
Place: Faridabad

Sd/- Authorised Officer
Can Fin Homes Ltd.

WELSPUN INDIA

(Corporate Identification Number - L17110GJ1985PLC033271)
Regd. Office: Welspun City, Village Versamed, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat - 370110
Corp. Office: Welspun House, 6th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013. E-mail : companysecretary_wil@welspun.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER ENDED 30, 2021

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total Income	2,50,139	1,99,258	7,40,796
2	Profit before Tax	28,320	25,373	76,870
3	Net Profit for the period	20,150	18,790	55,079
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	20,784	25,924	68,627
5	Equity Share Capital (Shares of Re. 1 each)	9,881	10,047	10,047
6	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet as at 31 March 2021			3,54,421
7	Security Premium Accounts as shown in the Audited Balance Sheet as at 31 March 2021			32,381
8	Net Worth	3,72,065	3,22,326	3,56,771
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	10,000	10,000	15,000
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-		

सेंसेक्स 207 अंक गिरकर 61,143 के स्तर पर हुआ बंद



मुंबई। मिलेजुले ग्लोबल संकेतों के बीच बुधवार को घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 206.93 अंक या 0.34% की गिरावट के साथ 61143.33 पर और निफ्टी 57.40 अंक या 0.31% नीचे 18211.00 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, प्राइवेट बैंक और मीडिया से जुड़े शेयरों में देखने को मिली। बाजार को सरकारी बैंकों के स्टॉक्स से सपोर्ट मिला।

बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 5.71 या

0.02% की मामूली बढ़त के साथ 25,590.55 और स्मॉलकैप इंडेक्स 85.45 पॉइंट या 0.30% बढ़कर 28,534.45 के लेवल पर बंद हुआ। NSE के सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो 11 में से 6 इंडेक्स लाल निशान में और 5 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी मीडिया (2.03%), निफ्टी मेटल (1.52%) और निफ्टी प्राइवेट बैंक (1.37%) में देखने को मिली। वहीं निफ्टी के पीएसयू बैंक

इंडेक्स में 2.05% की तेजी रही। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 383 पॉइंट यानी 0.63% की मजबूती के साथ 61,350 पॉइंट पर और निफ्टी 143 पॉइंट यानी 0.79% चढ़कर 18,268 पॉइंट पर बंद हुआ था।

वहीं ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 86 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है। ग्लोबल सप्लाय को लेकर चिंता बनी हुई है, जिससे क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका में क्रूड की इन्वेंट्री भी घटी है। इस साल क्रूड 69% और बीते 1 साल में करीब 98% महंगा हो चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) ने मंगलवार को बाजार से 2368.66 करोड़ रुपए निकाले। जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने 1385.41 करोड़ की खरीदारी की।

अमेरिका के शेयर बाजार के हाल : इससे पहले अमेरिका के शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। डाओ जॉस 0.04% चढ़कर 35,756 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.06% की बढ़त के साथ 15,235 और S&P 500 0.18% चढ़कर 4,574 पर बंद हुआ।

कॉइनरिच कुबेर का नया विज्ञापन ‘सिर्फ 100 रुपये से करें क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत’ लॉन्च

नई दिल्ली। कॉइनरिच कुबेर, भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक मूल्यवान क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह अभिनीत एक नया विज्ञापन लॉन्च किया है। यह कदम वित्तीय समृद्धि लाने और भारतीयों के लिए आसानी से धन का समावेश करने के निरंतर प्रयास के तहत उठाया गया है। हालिया विज्ञापन कॉइनरिच कुबेर की नवीनतम पेशकश को दर्शाता है, जिसके जरिए यूजर्स केवल 100 रुपये में क्रिप्टो निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।

यह विज्ञापन #कुछतोबदलेगा,कॉइनरिचकुबेर के नवीनतम 360 डिग्री विज्ञापन अभियान का हिस्सा है, जो टेलीविजन, प्रिंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी+ हॉटस्टार सहित विभिन्न ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है।

कॉइनरिच कुबेर का सरल, यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस उपभोगताओं को बिटकॉइन और अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकರೆसी पर आंशिक बिट्स में निवेश शुरू करने में सक्षम बनाता है।

क्रिप्टो यूनिर्कोन चैनलिसिस् के साथ काम करता है ताकि सभी क्रिप्टो लेनदेन में किसी भी तरह के सुरक्षा उखंडनों और वित्तीय अनियमितताओं को दूर रख साफ और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। अन्य क्रिप्टोकರೆसी लेन देन के विपरीत, कॉइनरिच कुबेर भारत और विश्व स्तर पर अग्रणी क्रिप्टो लेन देन से तरलता को साझा करता है, ताकि उपभोगताओं को सर्वोत्तम दरों पर व्यापार करने में सक्षम बनाया जा सके।

हालांकि खराब रिजल्ट के बावजूद कंपनी का शेयर 2% बढ़त के साथ 7,435 रुपए पर कारोबार कर रहा था। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान मारुति सुजुकी ने बताया कि उसकी कुल बिक्री 9.09% घटी है। कुल बिक्री 17,689 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले 19,297.80 करोड़ रुपए थी। मार्जिन 4.1% पर स्थिर रही।

कंपनी ने कहा कि कर्मोडिटी की बढ़ी

बिक्री 59,408 रही। हालांकि एक्सपोर्ट की बिक्री किसी भी एक तिमाही में सबसे ज्यादा रही। कुल बिक्री में कापेक्ट कारों की बिक्री सबसे ज्यादा रही। कापेक्ट कारों की 1.36 लाख बिक्री हुई थी। मारुति सुजुकी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से उसके मुनाफे पर असर दिखा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने 379,541 कारों की बिक्री की थी। घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 320,133 यूनिट रही। एक्सपोर्ट की



कीमतों और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से उसके मुनाफे पर असर दिखा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने 379,541 कारों की बिक्री की थी। घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 320,133 यूनिट रही। एक्सपोर्ट की



IPO Opening Date	Nov 1, 2021
IPO Closing Date	Nov 3, 2021
Issue Type	Book Built Issue IPO
Face Value	₹10 per equity share
IPO Price	₹161 to ₹163 per equity share
Market Lot	90 Shares
Min Order Quantity	90 Shares
Listing At	BSE, NSE
Issue Size	7,695,000 Eq Shares of ₹10 (aggregating up to ₹125.43 Cr)

खुलकर 3 नवम्बर को होगा बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक बिल्ट इश्यू प्रणाली से 10 रुपये फेसवैल्यू के 7695000 शेयर 161 से 163 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी कर 125.43 करोड़ रुपये जुटाये जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 90 शेयरों का है और रिटेल निवेशक कम से 1 लॉट में निवेश के लिए 14670 रुपये और अधिकतम 13 लॉट के माध्यम से कंपनी के आईपीओ में 190710 रुपये के निवेश के लिए आवेदन कर सकता है। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी यूनिस्टोन केपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा

रहा है।

निष्कर्ष: निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी, वाजिब पीई रेख्यो व प्राइस टू बुक वैल्यू, 30 वर्षों का अनुभव, बॉटम लाइन एवं टॉप लाइन में निरंतर ग्रोथ, वित्त वर्ष 2021 में 6 प्रतिशत से ज्यादा का कर पश्चात लाभ मार्जिन, एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छी उपस्थिति , ना के बराबर कर्ज जैसे बिंदुओं को देखते हुये निवेशक सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ में दीर्घावधि के लिए निवेश कर सकते हैं।

नोट: निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पूर्व पंजीकृत निवेश सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिये।

मारुति सुजुकी का शुद्ध मुनाफा 65.35 प्रतिशत घटा

मुंबई। देश में कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के मुनाफे पर चिप की कमी का असर दिखा है। कंपनी का फायदा दूसरी तिमाही में 65.35 प्रतिशत घट गया है। यह 475.30 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी समय में कंपनी को 1,371.60 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। जून तिमाही में कंपनी को 440 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था।

हालांकि खराब रिजल्ट के बावजूद कंपनी का शेयर 2% बढ़त के साथ 7,435 रुपए पर कारोबार कर रहा था। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान मारुति सुजुकी ने बताया कि उसकी कुल बिक्री 9.09% घटी है। कुल बिक्री 17,689 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले 19,297.80 करोड़ रुपए थी। मार्जिन 4.1% पर स्थिर रही।

कंपनी ने कहा कि कर्मोडिटी की बढ़ी

बिक्री 59,408 रही। हालांकि एक्सपोर्ट की बिक्री किसी भी एक तिमाही में सबसे ज्यादा रही। कुल बिक्री में कापेक्ट कारों की बिक्री सबसे ज्यादा रही। कापेक्ट कारों की 1.36 लाख बिक्री हुई थी। मारुति सुजुकी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की कमी से करीबन 1.16 लाख कारों का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। कंपनी के पास 2 लाख से ज्यादा शाहकों की

बुकिंग ऑर्डर की डिलीवरी अभी बाकी है। कंपनी इन कारों की डिलीवरी के लिए सभी प्रयास कर रही है। सितंबर तिमाही के दौरान कर्मोडिटी की कीमतें अचानक बढ़ गई। इसमें स्टील, अत्यु्मिनियम और अन्य मेटल्स की कीमतें शामिल रही। कंपनी ने कहा कि वह इन बढ़ी हुई कीमतों को ज्यादातर खुद सहन किया। शाहकों पर इसका भार काफी कम डाला गया।

अप्रैल से लेकर सितंबर तक के 6 महीने में कंपनी ने कुल 733,155 यूनिट्स की बिक्री की है। इसमें से घरेलू बाजार में 6.28 लाख कारों की बिक्री हुई जबकि 1.04 लाख यूनिट एक्सपोर्ट की गई। इस दौरान कुल बिक्री 36,096 करोड़ रुपए रही जबकि एक साल पहले 21,368 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। एक साल पहले कोविड की वजह से कंपनी की बिक्री पर असर दिखा था।

52 Week High		
Security		New 52W/H
3i Infotech Limited		35.85
Ambika Cotton Mills Limited		2,196.00
Aptech Limited		383.95
Arihant Foundations & Housing Limited		61.6
Art Nirman Limited		41.6
Arvind Limited		139
Astra Microwave Products Limited		234.35
Axis Mutual Fund - Axis Banking ETF		449.4
Bank of Baroda		103.75
Blue Dart Express Limited		6,779.80
CG Power and Industrial Solutions Limited		158.3
CPSE ETF		33.8
Creative Newtech Limited		345.65
Dangee Dums Limited		208.45
DCM Limited		69.9
Digjam Limited		24.05
Escorts Limited		1,579.95
Gokul Agro Resources Limited		52.85
Goldiam International Limited		1,124.00
Housing Development Finance Corporation Limited		2,948.00
Heritage Foods Limited		549.9
H.G. Infra Engineering Limited		830
ICICI Prudential Private Banks ETF-NIFTY Private Bank Index		227.7
Indo Thai Securities Limited		109.55
Iris Clothings Limited		230.35
The Jammu & Kashmir Bank Limited		44.45
Jayaswal Neco Industries Limited		28.95
Jindal Photo Limited		210.65
Jindal Poly Investment and Finance Company Limited		184.45
Jindal Stainless Limited		207.9
Jindal Stainless (Hisar) Limited		358.8
Jubilant Industries Limited		594.7
KDDL Limited		563.3
Kewal Kiran Clothing Limited		1,230.00
Kotak Mahindra Bank Limited		2,253.00
Kotak Mahindra Mutual Fund		290
K.P.L. Global Infrastructure Limited		163.5
Mirae Asset Mutual Fund - Mirae Asset NYSE FANG+ ETF		58.15
Man Infraconstruction Limited		129.15
Medicamen Biotech Limited		574.3
Mangalam Global Enterprise Limited		88.85
Motilal Oswal Mutual Fund - Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		132.2
Pokarna Limited		595

52 Week Low		
Aditya Birla Sun Life AMC Limited		620.5
Krsnaa Diagnostics Limited		650
Marine Electricals (India) Limited		31.15
Medicamen Biotech Limited		547
Synergy Green Industries Limited		135.9

वैभव ग्लोबल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : क-6बी, फ्लैट टी३, आदर्श नगर, जयपुर-302004 फोन : 91-141-2601020; फैक्स : 91-141-2605077; CIN : L36911RJ1989PLC004945 ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com	
द्वितीय अंतरिम लाभोाश के उद्देश्य के लिए रिर्कोर्ड तिथि की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2०13 की धारा 91 के प्रावधानों व इसके तहत बनाये गये नियमों एवं सेवा विनियमों के अनुसार सूचित किया जाता है कि बुधवार, 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु घोषित द्वितीय अंतरिम लाभोाश के उद्देश्य से रिर्कोर्ड तिथि शनिवार, 6 नवम्बर, 2021 होगी। उपरोक्त अंतरिम लाभोाश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा/ प्रेषित किया जाएगा। सेबी ने निर्धारित किया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियां शेयर धारकों को भुगतान करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष भुगतान, एग्रीफ़ेडटी, आरटीजीएस, 'पेयमल-एट-पार' वारंट्स/ चेक्स इत्यादि के भुगतान के लिए अनुमोदित माध्यम का उपयोग करेंगे। सभी शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे सूचना अपने बैंक खाता संख्या को कंपनी के शेयर ट्रंस्फर एजेंट या डिजिटल तरी प्रतिकागी के साथ अपडेट करें। समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी नवीनतम ई-मेल आईडी को कंपनी/ डिजिटल तरी प्रतिकागी के साथ पंजीकृत करें। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.vaibhavglobal.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।	
स्थान : जयपुर दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021	कुते वैभव ग्लोबल लिमिटेड हस्ताक्षर सुरीश शर्मा (कंपनी सचिव) FCS: 6535

<div>सिलगो रिटेल लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत कार्यालय : बी-11, महालक्ष्मी नगर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017</div> <div>फोन नं. +91-7055570564 वेबसाइट www.silgo.in ई-मेल - info@silgo.in</div> <div>सीएडिआर : L36911RJ2016PL1049036</div>					
30 सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अन्वर्गकेषित वित्तीय परिणामों का सार <div>(रु. हजारों में, आय प्रिं शेरर को छोड़कर)</div>					
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2021 अन्वर्गकेषित	समाप्त छमाही 30.09.2021 अन्वर्गकेषित	समाप्त तिमाही 30.9.2021 अन्वर्गकेषित	समाप्त वर्ष 31.3.2021 अन्वर्गकेषित
1.	प्रकमों से कुल आय	87८25.67	१5350.14	63430.38	3१852.81
2.	अक्षी के लिए डुद्ध लाभ/(हानि) (कर रिशिए एवं/अथवा साधारण मनी से पूर्व)	7804.51	1३451.22	7978.07	2१772.68
3.	कर से पूर्व अक्षी के लिए डुद्ध लाभ/(हानि) (रिशिए एवं/अथवा साधारण मनी के बाद)	7804.51	1३451.22	7978.07	2१772.68
4.	कर के बाद की अक्षी के लिए डुद्ध लाभ/(हानि) (रिशिए एवं/अथवा साधारण मनी के बाद)	6044.95	10265.91	5907.46	21984.21
5.	अक्षी हेतु कुल व्ययक आय (अक्षी हेतु कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्ययक आय (कर के बाद से शामिल)	6044.95	10265.91	5907.46	22105.93
6.	प्रगत इश्टिटी शेरर पूंजी	1०2700	102700	66660	1०2700
7.	अक्षीत (पूर्व का के अक्षीत कुलमत्र में दर्शाई गई पुनर्मूलांकन अक्षीतों के अक्षीरक अक्षीत)	--	--	--	157855.35
8.	प्री शेरर आय (रु. 10/- प्री का) (जारी तथा अस्थायी परिष्कारनी हेतु) (वर्गिकीकृत नहीं)				
1.	मुल	0.59	1.00	0.67	2.32
2.	अक्षीरक्षित	0.59	1.00	0.67	2.32
<p>टिप्पणी : क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उपस्थाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्स्चेंज में दर्शित की गई 30 सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणाम का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्स्चेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.silgo.in पर उपलब्ध है।</p> <p>ख) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।</p>					
स्थान : जयपुर दिनांक : 27 अक्टूबर 2021			निदेशक मंडल के लिए तथा अक्षी और से सिलगो रिटेल लिमिटेड हस्ताक्षर बिजिन जैन प्राबंध निदेशक DIN : 00935911		